



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 17] नई दिल्ली, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2006, शनिवार/भाद्र 12—भाद्र 18, 1928
No. 17] NEW DELHI, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2006, SATURDAY/BHADRA 12—BHADRA 18, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 104.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री वी. हनुमंत राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित का. नि. आ. 76-ई, दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, “धारा 12 की उपधारा (1) में खण्ड (1) के तहत” शीर्षक के अधीन

प्रविष्टि (13), के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी; नामतः :-

“(13), श्री वी. हनुमंत राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) 19 अगस्त, 2006 से 18 अगस्त, 2007 तक की अवधि के लिए निर्वाचित।”

[संख्या पी सी-11(51)/92/रक्षा (जीएस-VI)]

आर. एल. कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st August, 2006

S.R.O. 104.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri V. Hanumantha Rao, Member of Parliament (Rajya Sabha) as Member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that

purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely :—

In the said notification, under the heading “Under clause (i) of Sub-section (i) of Section 12” for the entry (13), the following entry shall be substituted; namely :—

“(13), Shri V. Hanumantha Rao, Member of Parliament (Rajya Sabha) elected with effect from the 19th August, 2006 upto 18th August, 2007.”

[No. PC-11 (51)/92/D(GS-VI)]

R. L. KAPOOR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 105.—केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो महाराष्ट्र राज्य में मोबाइल सिस्टम्स काम्प्लैक्स, बेगडेवाडी, पुणे-412101 के सामीप्य की भूमि है, के उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि के रेखांकित नक्शे का निरीक्षण महाराष्ट्र राज्य में पुणे के जिला कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकेगा।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मोबाइल सिस्टम्स काम्प्लैक्स, बेगडेवाडी, पुणे-412101 की बाह्य दीवार से लगभग 100 मीटर (109.4 गज) की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट सारी भूमि।

[फा. सं. डी सी डब्ल्यू ई/07/34079/डब्ल्यू डी ए/एमएससी/2380/डी (आर एण्ड डी)]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 29th August, 2006

S.R.O. 105.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in Clause (c) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed being land lying in the vicinity of Mobile System Complex, Begdewadi, Pune-412 101 in the State of Maharashtra, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the District Collector, Pune, Maharashtra.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of 100 metres (109.4 yards) from the crest of the outer parapet of the Mobile System Complex, Begdewadi, Pune-412 101, in the State of Maharashtra.

[F. No. DCWE/07/34079/WDA/MSD/2380/D(R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 106.—केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो महाराष्ट्र राज्य में रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईएटी), गिरिनगर, पुणे-411025 के सामीप्य की भूमि है, उपयोग पर उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को सभी निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि के रेखांकित नक्शे का निरीक्षण महाराष्ट्र राज्य में पुणे के जिला कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकेगा।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईएटी), गिरिनगर, पुणे-411025 की बाह्य दीवार से लगभग सौ मीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट सभी भूमि।

[फा. सं. डी सी डब्ल्यू ई/07/34079/डब्ल्यू डी ए/डीआईएटी/2272/डी (आर एण्ड डी)]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd August, 2006

S.R.O. 106.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in Clause (c) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule annexed herewith, being land lying in the vicinity of Defence Institute of Advanced Technology (DIAT), Girinagar, Pune-411 025 in the State of Maharashtra, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the District Collector, Pune, in the State of Maharashtra.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of approximately one hundred metres from the crest of the outer parapet of the Defence Institute of Advanced Technology (DIAT), Girinagar, Pune-411 025, in the State of Maharashtra.

[F. No. DCWE/07/34079/WDA/DIAT/2272/D(R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा कारखाना कैंटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में कानूनी (औद्योगिक) कैंटीनों के लिए आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर कारखानों में समूह 'ग' और 'घ' (अनौद्योगिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारतीय आर्डनेंस कारखाना, समूह 'ग' और 'घ' (अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2006" है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—(1) उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. पर्यवेक्षक श्रेणी-1	23*(2006) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अननुसूचित अनाथ	5000-150-8000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	---	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
--	--

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 4000-6000 रुपए के वेतनमान में ऐसे पर्यवेक्षक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	---

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।

- अतिरिक्त महाप्रबंधक -- अध्यक्ष
- संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक -- सदस्य
- कार्य प्रबंधक (जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा) -- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. पर्यवेक्षक श्रेणी-2	88*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	4000-100-6000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)			(9)			(10)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता
(11)	(12)					
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 3050-4590 रुपए के वेतनमान में ऐसे पर्यवेक्षक श्रेणी-3 जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है					
(13)			(14)			
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-					लागू नहीं होता ।	
1. अतिरिक्त महाप्रबंधक		— अध्यक्ष				
2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक		— सदस्य				
3. कार्य प्रबंधक (जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा)		— सदस्य				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. पर्यवेक्षक श्रेणी-3	316*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है) ।
						टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : मैट्रीकुलेशन या समकक्ष ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
वांछनीय : कंप्यूटर उपयोजन का बुनियादी ज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की प्रत्यायन समिति के प्रमाणपत्र के अनुरूप "ओ" स्तर का प्रमाणपत्र ।		
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(13)	(14)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. रसोइया	411*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(8)	(9)	(10)
व्यवसाय में एक वर्ष के अनुभव के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण	नहीं	दो वर्ष

(11)

पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा—ऐसे रसोई सहायक या चाय और
काफी बनाने वाले, सर्वर या बियरर और सेल्समैन या विक्रेता में
से जिन्होंने 2610-3540 रुपए के वेतनमान में छह वर्ष उस
श्रेणी में नियमित सेवा की हो जिनके द्वारा विभागीय परीक्षण
उत्तीर्ण न कर सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति : 2610-3540 रुपए के वेतनमान में ऐसे रसोई सहायक
या चाय और कॉफी बनाने वाले, सर्वर या बियरर और सेल्समैन या
विक्रेता जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो तथा
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

टिप्पण : रसोइया के पद पर प्रोन्नति के लिए परस्पर ज्येष्ठता 2610-
3540 रुपए के वेतनमान प्राप्त करने और नियमित आधार पर पोषक
श्रेणी में पद धारण करने की तारीख से अवधारित की जानी है ।

(13)

1. अतिरिक्त महाप्रबंधक
2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक
3. कार्य प्रबंधक (जिनमें से एक अनुसूचित जाति या
अनुसूचित जनजाति का होगा)

- अध्यक्ष
— सदस्य
— सदस्य

(14)

लागू नहीं होता

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|------|----------------|---|
| 5. रसोई सहायक या चाय और कॉफी बनाने वाला | 13*(2006) के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'घ' अननुसूचित जनजाति अनौद्योगिक | 2610-60-3150-65-3540 रु. | अचयन | लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है) । |
|---|--|---|--------------------------|------|----------------|---|

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(8)

(9)

(10)

किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
वांछनीय : मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।

आयु-नहीं
अर्हता-हां

दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भती द्वारा ।	<p>प्रोन्नति : ऐसा मसालची या धोबी या लड्का या सफाईवाला जिसने दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो ।</p> <p>टिप्पण : रसोई सहायक या चाय और कॉफी बनाने वालों के पद पर प्रोन्नति के लिए परस्पर ज्येष्ठता पोषक श्रेणियों में पद या नियमित आधार पर पद धारण करने की तारीख से अवधारित की जानी है ।</p> <p>आमेलन : सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको रक्षा सेवाओं में अधिशिष्ट कर दिया गया है तथा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो ।</p>

(13)	(14)
1. अतिरिक्त महाप्रबंधक 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक 3. कार्य प्रबंधक (जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा)	— अध्यक्ष — सदस्य — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सर्वर या बियरर	449*(2006) रक्षा सेवाओं में *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सिविलियन, समूह 'घ' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2610-60- 3150-65- 3540 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय : मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।	आयु-नहीं अर्हता-हां	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	<p>प्रोन्नति : ऐसा मसालची या धोबी या लड़का या सफाईवाला जिसने दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित शैक्षिक अर्हता हो ।</p> <p>टिप्पण : सर्वर या बियरर के पद पर प्रोन्नति के लिए परस्पर ज्येष्ठता पोषक श्रेणियों में पद या नियमित आधार पर पद धारण करने की तारीख से अवधारित की जानी है ।</p> <p>आमेलन : सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको रक्षा सेवाओं में अधिशिष्ट कर दिया गया है तथा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो ।</p>

(13)	(14)
1. अतिरिक्त महाप्रबंधक	— अध्यक्ष
2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक	— सदस्य
3. कार्य प्रबंधक (जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा)	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सेल्समैन या विक्रेता	949*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'घ' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2610-60- 3150-65- 3540 रु.	अचयन	नहीं	<p>18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है ।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।</p>

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय : मैट्रीकुलेशन या समतुल्य ।	आयु-नहीं अर्हता-हां	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	<p>प्रोन्नति : ऐसा मसालची या धोबी या लड़का या सफाईवाला जिसने दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित शैक्षिक अर्हता हो ।</p> <p>टिप्पण : सेल्समैन या विक्रेता के पद पर प्रोन्नति के लिए परस्पर ज्येष्ठता पोषक श्रेणियों में पद या नियमित आधार पर पद धारण करने की तारीख से अवधारित की जानी है ।</p> <p>आमेसन : सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको रक्षा सेवाओं में अधिशिष्ट कर दिया गया है तथा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो ।</p>

(13)	(14)
1. अतिरिक्त महाप्रबंधक	— अध्यक्ष
2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक	— सदस्य
3. कार्य प्रबंधक (जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा)	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. मसालची	03*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'घ' अननुसूचित अनौद्योगिक	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है ।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।</p>

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवां स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	आमेलन : सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको रक्षा सेवाओं में अधिशिष्ट कर दिया गया है तथा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. धोबी या लड़का	43*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'घ' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवां स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)				(12)		
आमेसन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।				आमेसन : सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको रक्षा सेवाओं में अधिशिष्ट कर दिया गया है तथा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा-अधिकथित अर्हता हो ।		
(13)				(14)		
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. सफाई-वाला	08* (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'घ' अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।
(8)				(9)	(10)	
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवां स्तर उत्तीर्ण				लागू नहीं होता	दो वर्ष	
(11)				(12)		
आमेसन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।				आमेसन : सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको रक्षा सेवाओं में अधिशिष्ट कर दिया गया है तथा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में यथा-अधिकथित अर्हता हो ।		
(13)				(14)		
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		

[फा. सं. 1(1)/04/यू.एस. (ओएस)/(डीएफवाई-II)]

चांद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 2006

S.R.O. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Factory Canteens Employees Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'C' and 'D' (Non-Industrial) posts in Ordnance and Ordnance Equipment Factories for Statutory (Industrial) Canteens in the Ministry of Defence namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the "Indian Ordnance Factories, Group 'C' and 'D' (Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 2006."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application : These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that the marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Supervisor Grade-I	23* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 5000-150-8000	Selection	Not applicable	Not applicable

2633 GI/06-4

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any				
(8)	(9)	(10)				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made					
(11)	(12)					
By Promotion	Promotion : From amongst Supervisors Grade-II in the scale of pay of Rs. 4000-6000 having eight years regular service in the grade.					
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted					
(13)	(14)					
Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable.					
1. Additional General Manager	—Chairman					
2. Joint General Manager or Deputy General Manager	—Member					
3. Works Manager (One of whom shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe)	—Member					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Supervisor Grade-II	88* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)	(10)				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				
(11)	(12)					
By Promotion	Promotion : From amongst Supervisors Grade-III in the scale of pay of Rs. 3050—4590 with eight years regular service in the grade.					
(13)	(14)					
Departmental Promotion Committee Consisting of :—		Not applicable.				
1. Additional General Manager		—Chairman				
2. Joint General Manager or Deputy General Manager		—Member				
3. Works Manager (One of whom shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe)		—Member				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Supervisor Grade-III	316*(2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)
Essential : Matriculation or equivalent Desirable : Basic knowledge of computer application and having "O" level certificate as per Department of Electronics Accreditation Committee Certificate	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Cook	411*(2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)				
Matric pass with one year experience in the trade.	No	Two years				
(11)	(12)					
Eighty five percent by Direct Recruitment Fifteen percent by Promotion—from Kitchen Assistant or Tea and Coffee Maker, Server or Bearer and Salesman or Vendor having six years regular service in the grade having scale of pay of Rs. 2610—3540 on passing departmental test failing which by Direct Recruitment.	Promotion : From amongst Kitchen Assistant or Tea and Coffee Maker, Server or Bearer and Salesman or Vendors having three years regular service in the scale of pay of Rs. 2610—3540 in the grade on passing of the departmental test Note : Inter-se seniority for promotion to the post of cook is to be determined from the date of attaining the scale of pay of Rs. 2610—3540 and holding the post in the feeder grade on regular basis.					
(13)	(14)					
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Additional General Manager —Chairman 2. Joint General Manager or Deputy General Manager —Member 3. Works Manager (One of whom shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe) —Member	Not applicable.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Kitchen Assistant or Tea and Coffee Maker	13* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'D' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-Selection	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division, of Chamba District of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.
(8)	(9)	(10)				
8th Class from a recognized School Desirable : Matriculation or equivalent	Age—No, Qualification—Yes	Two years				

(11)	(12)
By promotion, failing which by absorption, failing both by direct recruitment	<p>Promotion : Masalchi or Washerman or Boy or Safaiwala having two years of regular service and possessing qualification as laid down for direct recruits in column (8).</p> <p>Note : The inter-se seniority for promotion to the post of Kitchen Assistant or Tea and Coffee makers is to be determined from the date of holding that post in feeder grades or posts on regular basis.</p> <p>Absorption : Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).</p>

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. Additional General Manager —Chairman	
2. Joint General Manager or Deputy General Manager —Member	
3. Works Manager (One of whom shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe) —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Server or Bearer	449* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-Selection	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government)
						<p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.</p>

(8)	(9)	(10)
8th Class pass from a recognized School. Desirable : Matriculation or equivalent.	Age—No, Qualification—Yes.	Two years

2533 GI/06-5

(11)	(12)
By promotion, failing which by absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion : Masalchi or Washerman or Boy or Safaiwala with two years of regular service and possessing qualification as laid down for direct recruits in column (8)
	Note : The inter-se seniority for promotion to the post of Server or Bearer is to be determined from the date of holding the post in feeder grades or posts on regular basis.
	Absorption : Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable
1. Additional General Manager —Chairman 2. Joint General Manager or Deputy General Manager —Member 3. Works Manager (One of whom shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe) —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Salesman or Vendor	949* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-selection	No	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).
						Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)
8th Class pass from a recognized school. Desirable : Matriculation or equivalent.	Age—No Qualification—Yes	Two years

(11)	(12)
By promotion, failing which by absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion : Masalchi or Washerman or Boy or Safaiwala having two years of regular service and possessing qualification as laid down for direct recruits in column (8). Note : The inter-se seniority for promotion to the post of Salesman or Vendor is to be determined from the date of holding the post in feeder grades or posts on regular basis. Absorption : Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable
1. Additional General Manager —Chairman 2. Joint General Manager or Deputy General Manager —Member 3. Works Manager (One of whom shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe) —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Masalchi	03*(2006) *Subject to variation dependent on workload	Civilian in Defence Services, Group 'D' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs.2550-55-2660-60-3200	Not-applicable	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government)
						Note The crucial date for determining the age limit shall be the last date for the receipt of applications from candidates in India, except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)
V standard pass from a recognized school	Not applicable	Two years

(11)					(12)	
By absorption, failing which by direct recruitment					Absorption : Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).	
(13)					(14)	
Not applicable					Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Washerman 43* or Boy	(2006) *Subject to variation dependent on workload.	Civilian in Defence Services, Group 'D' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2550-55- 2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.
(8)			(9)		(10)	
V standard pass from a recognized school			Not applicable		Two years	
(11)					(12)	
By absorption, failing which by direct recruitment					Absorption : Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).	
(13)					(14)	
Not applicable					Not applicable	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Safaiwala	8* (2006) *Subject to variation dependent on workload	Civilian in Defence Services, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	No	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
						Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)
V standard pass from a recognized school	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
By absorption, failing which by direct recruitment.	Absorption : Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).	
(13)	(14)	
Not applicable	Not applicable.	

[F. No. 1(1)/04/US(OS)/D(Fy.-II)]

CHAND KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मिलिट्री इंजीनियर सेवा (गैर-औद्योगिक, समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1970 जहां तक उनका संबंध चौकीदार के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, मिलिट्री इंजीनियर सेवा में चौकीदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियर सेवा समूह "घ" (चौकीदार) भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2533 GI/06-6

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. चौकीदार	12669*(2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अनौद्योगिक, अनुसूचिवीय, अराजपत्रित	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बाबत 45 वर्ष तक) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 8वां स्तर उत्तीर्ण । वांछनीय : चौकीदार के कर्तव्यों से सुपरिचित होना चाहिए और शारीरिक रूप से योग्य होना चाहिए ।	लागू नहीं होता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
(11)		(12)	
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।		आमेलन : रक्षा मंत्रालय की निम्नतर विरचना की सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति ।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(13)		(14)	
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—		लागू नहीं होता।	
1. अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य	—अध्यक्ष		
2. कार्यपालक इंजीनियर या उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी	—सदस्य		
3. समूह 'क' सिविलियन अधिकारी या उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी जो विभाग से संबद्ध न हो	—सदस्य		

[फा. सं. पीसी-बी/75005/चौकीदार/आरआर/सीएससीसी/486/आरआर/06 रक्षा (नि)]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 2006

S.R.O. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Non-Industrial Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, in so far as they relate to the posts of Chowkidar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Chowkidar in the Military Engineer Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services Group 'D' (Chowkidar) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and the Other Backward Classes and special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of the posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chowkidar	12669* (2005) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'D' Non-Industrial Non-Ministerial and Non-Gazetted.	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Departmental Candidates. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit in each case shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Essential : 8th Standard pass from a recognized School. Desirable : Should be conversant with the duties of Chowkidar and should be physically fit.	Not applicable	Two years for direct recruits only.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by absorption or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(11)	(12)		
By absorption failing which by direct recruitment	Absorption : Persons serving in analogous or higher grades in lower formation of Ministry of Defence.		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(13)	(14)		
Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—	Not applicable.		
(1) Superintending Engineer or equivalent	—Chairman		
(2) Executive Engineer or Officer of equivalent rank	—Member		
(3) Group 'A' Civilian Officer or Officer of equivalent rank not connected with the Department	—Member		

[F. No. PC-B/75005/Chowkidar/RR/CSCC/486/RR/06/D(Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय उप-सहायक महानिदेशक (भंडार) (सिविलियन) और स्टाफ कैप्टन भर्ती नियम, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय के अधीन स्टाफ कैप्टन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय (स्टाफ कैप्टन) भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2633.GI/06-7

4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कैप्टेन	6*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	10,000-325- 15,200 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	---	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सौदा है ।	प्रोन्नति : 6500-10600 रुपए के वेतनमान में ऐसे भंडार अधिकारी (सिविलियन) जिसने उस श्रेणी में नियमित आठ वर्ष की सेवा की है ।
---	--

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता

(12)

सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनों या स्वशासी संगठनों के अधीन अधिकारी।

(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर या विभाग में सदृश पर धारण किए हुए हैं ;
या

(ii) जिनकी 6500-10,500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर मूल काडर या विभाग में आठ वर्ष की नियमित सेवा है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से विज्ञान में डिग्री जिसमें रसायनशास्त्र एक विषय के रूप में हो,

(ii) औषधियों तथा सर्जिकल भंडार और उपकरणों के क्रय, अभिरक्षा और जारी करने का पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---|----------|
| (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| (2) रक्षा मंत्रालय का संबंधित संयुक्त सचिव | —सदस्य |
| (3) अपर महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवाएं (उपस्कर और भंडार) | —सदस्य |

[फा. सं. 11375/स्टाफ कैप्टेन/आरआर/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/426/आरआर/रक्षा (नियुक्ति)/06]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

2633 GI/06-8

New Delhi, the 29th August, 2006

S.R.O. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Deputy Assistant Director General (Stores) (Civilian) and Staff Captain Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment of the post of Staff Captain under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General Armed Forces Medical Services, (Staff Captain) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment for the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Captain	6* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 10,000-325-15,200	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Two years	

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

Promotion failing which by deputation including short term contract

Promotion : Store Officer (Civilian) in the pay scale of Rs. 6500-10500 having eight years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including Short Term Contract) :

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) having eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Degree in Science with Chemistry as a subject from a recognised University or equivalent.

(ii) Five years' experience in purchase, custody and issue of medicines and surgical stores and appliances.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

Circumstances in which Union Public Service
Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of—	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission ---Chairman	
(2) Joint Secretary concerned in the Ministry of Defence ---Member	
(3) Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) ---Member	

[F. No. 11375/Staff Capt/RR/DGAFMS/DG-2B/426/RR/D(A)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.